



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 18—जून 24, 2011 (ज्येष्ठ 28, 1933)

No. 25]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 18—JUNE 24, 2011 (JYAISTHA 28, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2011

सं. आरएस.20/1/2011/47—(कार्मिक)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री पी. गोपालकृष्णन, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार 31 मई, 2011 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एम. शशिलेखा नायर, संयुक्त निदेशक

भारतीय पुलिस सेवा (पश्चिम बंगाल : 73), दिनांक 02 जून, 2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. एस. एस. नायर, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2011

सं. आरएस.20/1/2011/48—(कार्मिक)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री के. रविन्द्र, संयुक्त निदेशक (वृत्तलेखन) 31 मई, 2011 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एम. शशिलेखा नायर, संयुक्त निदेशक

सं. ए-12025/8/2007-प्रशा.-II—योजना आयोग में वेतन वर्ग-2 अर्थात् रु. 9,300—34,800 + 4,600 रु. ग्रेड वेतन में तदर्थ आर्थिक अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन) (समूह "ख" राजपत्रित) श्री बैधर स्वेन को 10.05.2011 (अपराह्न) से वेतन वर्ग-2 अर्थात् रु. 9,300—34,800 + 4,200 रु. ग्रेड वेतन में उनके अनुसंधान सहायक (सांख्यिकी) के वास्तविक पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 जून 2011

सं. 19011/1/2008-प्रशा.—संयुक्त आसूचना समिति के अध्यक्ष पद पर अपने तीन वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर श्री हृदयानन्द उपाध्याय,

सुभाष चन्द्र, अवर सचिव

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 जून 2011

सं. ए-19012/37/2011-यू आई डी ए आई--प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) सूचना भवन, नई दिल्ली के दिनांक 01.06.2011 के पत्र सं. 19011/259/2010/एस ई (टी) द्वारा सूचित किए गए अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसरण में श्री नवीन कुमार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली, में 9,300--34,800 रुपये के वेतन बैंड + 4,800/- रुपये के वेतन ग्रेड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, दिनांक 01.06.2011 की पूर्वाह्न से निजी सचिव के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरूण कुमार सरकार, उप निदेशक

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2011

सं. 12/39/2011-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, सुश्री कविता हान्डा को तदर्थ आधार पर 29.04.2011 (पूर्वाह्न) से 30.09.2011 तक की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल. बी. तोल्टे, अवर सचिव

दिनांक 3 जून 2011

सं. 12/40/2011-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री अरूण कुमार को तदर्थ आधार पर 01.06.2011 (पूर्वाह्न) से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-I (राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल. बी. तोल्टे, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 2011

सं. ए-32014/01/2011-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सेवा प्रभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/1/2011-के.से.-II (ए) दिनांक 29 मार्च, 2011 के अनुसार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित आशुलिपिक ग्रेड क और ख (संविलयित) श्री पन्ना लाल को इस विभाग में वेतन बैंड-3 15,600--39,100 रु. + ग्रेड वेतन 6,600/-रु. में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में 23.05.2011 (पूर्वाह्न) से 30.09.2011 की अवधि तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक और अगले आदेशों तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

जयंती श्रीराम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2011

सं. 13017/52/2008-अ. भा. से.(I)--केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की सहमति से सुश्री कामिनी चौहान रतन, भा.प्र.से. (उ.प्र. : 97) जो वर्तमान में अन्तर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति पर हैं, को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश संवर्ग में समय पूर्व वापसी का अनुमोदन कर दिया है। अधिकारी को इस निदेश के साथ कार्यमुक्त कर दिया जाए कि वह अपने मूल संवर्ग अर्थात् उत्तर प्रदेश में तत्काल रिपोर्ट करें।

नरेद्र गौतम, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 2011

सं. ए-22011/02/2008-प्रशा.-2--राष्ट्रपति, व्यय विभाग (सीएस) दिनांक 03.05.2011 के का.ज्ञा.सं.-32015/04/2010-सीएस के अनुसरण में, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 30.06.2011 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं:--

क्र. सं. अधिकारियों के नाम

- | 1 | 2 |
|-----|-------------------------|
| | (सर्वश्री) |
| 1. | अशोक कुमार |
| 2. | बी. एन. सैनी |
| 3. | भाष्कर चक्रवर्ती |
| 4. | श्रीमती डी. के. कालरा |
| 5. | किशन लाल मीणा |
| 6. | मनोज मनु |
| 7. | श्रीमती नीलम सिब्बल |
| 8. | श्रीमती नीरा बुद्धिराजा |
| 9. | रमेश प्रसाद |
| 10. | सुश्री रीता सचदेवा |
| 11. | श्रीमती साधना शर्मा |
| 12. | संजय कुमार झा |
| 13. | श्रीमती सरिता गुलाटी |
| 14. | वाई. वाई. पराते |
| 15. | सुश्री स्वर्ण रूद्रा |
| 16. | सुश्री शिखा दास |
| 17. | सुश्री सतिन्दर जीत कौर |

1	2
	(सर्वश्री)
18.	सुनील कुमार मांडी
19.	सुश्री ई. कूजर
20.	संतोष कुमार
21.	एस. सुब्रमणियम
22.	हृदय नंद साह
23.	सुश्री नीलम गांधी
24.	सुश्री प्रतिभा शर्मा
25.	डी. के. असिजा
26.	जस्टिन खालको

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में उपरोक्त सहायकों की तदर्थ नियुक्तियां निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन होगी:--

(क) यह तदर्थ नियुक्ति, कामचलाऊ व्यवस्था होने के कारण, इससे अधिकारियों को अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने या अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ख) यह तदर्थ व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि वरिष्ठता कोटा या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल डी सी ई) के जरिए या अगले आदेशों तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। अगर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति नियमित नियुक्ति हेतु इन दोनों श्रेणियों में अर्ह नहीं होते, तो उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आबंटित उनके संबंधित संवर्ग में उनके (नियमित अनुभाग अधिकारी) द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 25 मई 2011

सं. ए-12011/06/2011-प्रशा.-2--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.03.2011 और 13.04.2011 के का.ज्ञा.सं. 4/2/2011-सीएस-II तथा व्यय विभाग (सीएसएस) के दिनांक 12.05.2011 के का.ज्ञा.सं. ए-32014/02/2010-सीएस के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 9,300--34,800 रु. + 4,800/-रु. (ग्रेड वेतन)/पीबी-2 और 9,300--34,800 रु. + 5,400/-रु. (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड-2 में उनके नाम के सामने दी गई तारीख से दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक, जो

भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. अधिकारी का नाम सं.	आर्थिक कार्य विभाग में निजी सचिव के पद पर नियुक्ति की तारीख
(श्री/सुश्री)	
1. अतुल सक्सेना	12.05.2011 (पूर्वाह्न)
2. प्रमोद कुमार	12.05.2011 (पूर्वाह्न)
3. धाना राम	12.05.2011 (पूर्वाह्न)
4. विमल चानना	12.05.2011 (पूर्वाह्न)
5. मल्लिका रवि शंकर	12.05.2011 (पूर्वाह्न)
6. अभिजीत सेन गुप्ता	13.05.2011 (पूर्वाह्न)
7. संतोष कुमार सागर	12.05.2011 (पूर्वाह्न)
8. श्रवण कुमार	12.05.2011 (पूर्वाह्न)
9. रमा देवी शर्मा	12.05.2011 (पूर्वाह्न)
10. सीमा रानी अरोड़ा	12.05.2011 (पूर्वाह्न)
11. रीता ओहरी	12.05.2011 (पूर्वाह्न)

2. यह तदर्थ नियुक्ति अधिकारी को अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु प्रवर सूची में उनके नाम शामिल किए जाने या केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव के ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2011

सं. पी.एफ.जी. (2253)/प्रशा.-I--भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय), श्रीमती सुषमा नाथ, आईएस (म.प्र. : 1974), अधिवर्षिता की आयु के बाद सेवा-विस्तार की अवधि समाप्त होने पर दिनांक 31 मई, 2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

सं. ए-12026/03/2003-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री मनमोहन सचदेवा, भारतीय लागत एवं लेखा सेवा को प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति पर 25 मई, 2011 के अपराह्न से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (योजना वित्त-1 प्रभाग) में तदर्थ आधार पर संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 3 जून 2011

सं. ए-12026/05/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, इस विभाग की दिनांक 23.10.2008 की अधिसूचना सं. ए-12026/05/2005-प्रशा.-I के अनुक्रम में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में श्रीमती मधुलिका पी. सुकुल (आईडीएस : 82) का कार्यकाल 31 मार्च 2013 तक बढ़ाते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2011

सं. ए-11019/06/2011-ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के श्री प्रणोतोष कुमार देब को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, मेघालय, शिलांग में 15,600--39,100/-रु. (ग्रेड वेतन 6,600/-रुपए) के वेतनमान में कल्याण अधिकारी के पद पर दिनांक 06.05.2011 (पूर्वाह) से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

अनिल शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-11019/06/2011-ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के श्री किशोरी लाल सैनी को महालेखाकार (ए. एंड ई.) का कार्यालय, पंजाब, चंडीगढ़ में 15,600--39,100/-रु. (ग्रेड वेतन 6,600/-रुपए) के वेतनमान में कल्याण अधिकारी के पद पर दिनांक 08.04.2011 (पूर्वाह) से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

अनिल शर्मा, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2011

सं. ए-19011/742/2010-ई.-I--औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री वेंकटरमनी भास्कर, आईएस (एपी : 81) ने अपने मूल संवर्ग अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के अवधि पूर्व वापिस लौटने हेतु अनुरोध तथा तत्पश्चात उसी के लिए एसीसी के अनुमोदन पर 31 मई, 2011, अपराह्न से अपना पदभार छोड़ दिया है।

श्री वेंकटरमनी भास्कर, आईएस (एपी : 81) की सेवाएं उनके मूल संवर्ग अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को 31 मई, 2011, अपराह्न से सुंपुर्द की जाती हैं।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2011

सं. ए-12011/01/2007-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च 2011 के कार्यालय ज्ञापन

सं. 3/1/2011-सीएस-II (ए) के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग की सीएसएसएस संवर्ग की निजी सचिव श्रीमती नीलू नांगिया को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग में प्रधान निजी सचिव के रूप में दिनांक 13.05.2011 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.09.2011 की अवधि तक के लिए वेतन बैंड-3 (15,600--39,100 रुपये) + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये में तदर्थ आधार पर नियुक्ति करती हैं।

2. श्रीमती नांगिया की पीपीएस ग्रेड में नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और ये उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चितकाल के लिए बने रहने अथवा पीपीएस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 मई 2011

सं. ए-32011/05/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2011-सीएस-II (ए), के अनुसरण में सुश्री रेनु शर्मा, को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800 में ग्रेड पे रु. 4,800/- सहित 06.05.2011 (पूर्वाह) से तदर्थ आधार पर सीएसएसएस (पीएस) के आशुलिपि ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.09.2011 अथवा सीएसएसएस (पीएस) के नियमित आशुलिपि ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक होगी।

3. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2011-सीएस-II (ए), में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

4. उन्हें औषध विभाग (डीओपी) में तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

सं. ए-32011/05/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2011-सीएस-II (ए), के अनुसरण में सुश्री नीलम उप्पल, को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800 में ग्रेड पे रु. 4,800/- सहित 06.05.2011 (पूर्वाह) से तदर्थ आधार पर सीएसएसएस (पीएस) के आशुलिपि ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.09.2011 अथवा सीएसएसएस (पीएस) के नियमित आशुलिपि ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक होगी।

3. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2011-सीएस-II (ए), में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

4. उन्हें औषध विभाग के संबंध कार्यालय नेशनल फॉर्मस्यूटीकल प्राईसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) में तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

सं. ए-32011/05/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2011-सीएस-II (ए), के अनुसरण में सुश्री निर्मल चौधरी, को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800 में ग्रेड पे रु. 4,800/- सहित 06.05.2011 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सीएसएसएस (पीएस) के आशुलिपि ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.09.2011 अथवा सीएसएसएस (पीएस) के नियमित आशुलिपि ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक होगी।

3. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2011-सीएस-II (ए), में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

4. उन्हें रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग (डीओसी एंड पीसी) में तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

सं. ए-32011/05/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2011-सीएस-II (ए), के अनुसरण में श्री लक्ष्मण दास, को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800 में ग्रेड पे रु. 4,800/- सहित 06.05.2011 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सीएसएसएस (पीएस) के आशुलिपि ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.09.2011 अथवा सीएसएसएस (पीएस) के नियमित आशुलिपि ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक होगी।

3. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2011-सीएस-II (ए), में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

4. उन्हें उर्वरक विभाग (डीओएफ) में तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

सं. ए-32011/05/2011-मा.सं. II-- राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय

ज्ञापन सं. 4/2/2011-सीएस-II (ए), के अनुसरण में श्री मोहन सिंह, को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड पे रु. 4,800/- सहित 06.05.2011 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सीएसएसएस (पीएस) के आशुलिपि ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.09.2011 अथवा सीएसएसएस (पीएस) के नियमित आशुलिपि ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) के उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक होगी।

3. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2011-सीएस-II (ए), दिनांक 31.03.2011 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

4. उन्हें उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी), जो उर्वरक विभाग का संबद्ध कार्यालय है, में तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

सं. ए-32011/05/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2011-सीएस-II (ए), के अनुसरण में श्री आर. पी. ढोंगड़ा को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड पे रु. 4,800/- सहित 06.05.2011 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सीएसएसएस (पीएस) के आशुलिपि ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.09.2011 अथवा सीएसएसएस (पीएस) के नियमित आशुलिपि ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) के उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक होगी।

3. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2011-सीएस-II (ए), में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

4. उन्हें औषध विभाग के संबंध कार्यालय नेशनल फॉर्मस्यूटीकल प्राईसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) में तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

सं. ए-32011/05/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2011-सीएस-II (ए), के अनुसरण में सुश्री सुधा आर. शर्मा, को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड पे रु. 4,800/- सहित 06.05.2011 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सीएसएसएस (पीएस) के आशुलिपि ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.09.2011 अथवा सीएसएसएस (पीएस) के नियमित आशुलिपि ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) के उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक होगी।

3. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2011-सीएस-II(ए), में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

4. उन्हें औषध विभाग (डीओपी) में तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

सं. ए-32011/05/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2011-सीएस-II(ए), के अनुसरण में श्री के. आर. दशमना को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड पे रु. 4,800/- सहित 06.05.2011 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सीएसएसएस के (पीएस) के आशुलिपि ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.09.2011 अथवा सीएसएसएस (पीएस) के नियमित आशुलिपि ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक होगी।

3. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2011-सीएस-II(ए), में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

4. उन्हें औषध विभाग (डीओपी) में तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

सं. ए-32011/04/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/1/2011-सीएस-II(ए), के अनुसरण में श्री मलकीत सिंह को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड पे रु. 6,600/- सहित 29.03.2011 (अपराह्न) से तदर्थ आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.09.2011 अथवा जब तक पद नियमित आधार पर भरा न जाए अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक होगी।

3. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए), में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

4. उन्हें औषध विभाग (डीओपी) में तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

सं. ए-32011/04/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन

संख्या 3/1/2011-सीएस-II(ए), के अनुसरण में श्री अनूप सिंह रावत को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड पे रु. 6,600/- सहित 29.03.2011 (अपराह्न) से तदर्थ आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.09.2011 अथवा जब तक पद नियमित आधार पर भरा न जाए अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक होगी।

3. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

4. उन्हें उर्वरक विभाग (डीओएफ) में तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

सं. ए-32011/04/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/1/2011-सीएस-II(ए), के अनुसरण में श्री एस. एस. रावत को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड पे रु. 6,600/- सहित 26.04.2011 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.09.2011 अथवा जब तक पद नियमित आधार पर भरा न जाए अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक होगी।

3. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए), में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

4. उन्हें रसायन और पेट्रो-रसायन (डीओसी एंड पीसी) में तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

सं. ए-32011/04/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/1/2011-सीएस-II(ए), के अनुसरण में सुश्री इंदू मसंद, को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड पे रु. 6,600/- सहित 06.05.2011 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.09.2011 अथवा जब तक पद नियमित आधार पर भरा न जाए अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक होगी।

3. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए), में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

4. उन्हें रसायन और पेट्रो-रसायन (डीओसी एंड पीसी) में तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

दिनांक 26 मई 2011

सं. ए-23011/19/2010-मा.सं. II-- राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 16.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/27/2010-सीएस-II (ए), के अनुसरण में श्रीमती संतोष आनंद को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड पे रु. 4,800/- सहित 06.05.2011 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर 2009 की चयन सूची के लिए सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. उन्हें उर्वरक विभाग (डीओएफ) में तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

सं. ए-23011/19/2010-मा.सं. II-- राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 16.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/27/2010-सीएस-II (ए), के अनुसरण में श्रीमती जसविंदर कौर रंधेर को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड पे रु. 4,800/- सहित 10.05.2011 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर वर्ष 2009 की चयन सूची के लिए सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. उन्हें उर्वरक विभाग (डीओएफ) में तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2011

सं. ए-18011/126/2011-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09 मई, 2011 के कार्यालय आदेश सं. 04.02.2010 सीएस-I (डी) के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 अधिकारी (अवर सचिव) श्री यू. विश्वनाथम को वर्ष 2010 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव की चयन सूची में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में 19 मई, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में नियुक्त करती हैं।

पी. पी. मुरलीधरन, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली-110107, दिनांक 27 मई 2011

सं. ए-19011/23/2011-प्रशा.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/2/2010 सीएसआई (डी), दिनांक 9.5.2011 के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) की वर्ष 2010 की चयन सूची में श्री वी. सेतुमाधवन, नियमित ग्रेड-I (अवर सचिव) सीएसएस (सीएसएल सं. 4618) का नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, उन्हें दिनांक 16.05.2011 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर भारी उद्योग विभाग में सीएसएस के सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

एल. सी. राम, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2011

सं. ए-11011/1/2004-स्था.1--राष्ट्रपति, भांडागारण विकास विनियामक प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत श्री सी. विश्वनाथ, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एपी : 81) को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में प्रतिनियुक्ति से प्रतिनियुक्ति आधार पर 19 मई, 2011 के पूर्वाह्न से 02.03.2016 तक के कार्यकाल के लिए या अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

संजय कुमार, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 31 मई 2011

सं. ए-38018/05/2010-स्थापना--महामहिम राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में अनुभाग अधिकारी श्री राम चन्द्र को 31 मई, 2011 (अपराह्न) को सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त करते हैं।

श्रीनिवास प्रधान, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 24 मई 2011

सं. ए-12025/07/2011-के.स्वा.सेवा-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. भावना मल्होत्रा सिंह को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में परीवीक्षा पर दिनांक 08.04.2011 के अपराह्न से अगले आदेशों तक विशेषज्ञ ग्रेड-II (प्रसूति एवं स्त्री रोग) के पद पर नियुक्त करती हैं।

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 3 जून 2011

सं. ए-12025/47/2009-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. मोहित बंसल को दिनांक 05.08.2010 के अपराह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 15,600--39,100/- + 5,400/- रुपए (पीबी-3) के वेतनमान में अस्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं। डॉ. मोहित बंसल को डाक विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। वह नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 2 जून 2011

सं. ए-12025/22/11-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. पुलिन कुमार गुप्ता को दिनांक 24.03.2011 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग में कायचिकित्सा की विशेषज्ञता में सहायक आचार्य के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/36/10-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. राकेश गर्ग को दिनांक 21.02.2011 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग में संवेदनाहरण की विशेषज्ञता में सहायक आचार्य के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/40/09-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. पारूल मल्लिक को दिनांक 24.03.2011 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग में संवेदनाहरण की विशेषज्ञता में सहायक आचार्य के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2011

सं. ए-32013/03/2010-स्थापना-I--स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सीएसएस के श्री बी. पी. राणा, ग्रेड-I (अवर सचिव) का नाम 2010 के लिए सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 मई, 2011 के कार्यालय आदेश सं. 4/2/2010-पी.एस. I (डी) के अनुसरण में उन्हें एतद्वारा दिनांक 09.05.2011

(पूर्वाह्न) से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री बी. पी. राणा की पदोन्नति सुश्री गरिमा सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) कोलकाता (अब सीएटी, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में स्थानांतरित) के समक्ष दायर ओए सं. 1864/2009 में अंतिम आदेशों के अध्वधीन है।

निर्मला कुट्टी, अवर सचिव

दिनांक 16 मई 2011

सं. ए-32013/1/2011-स्थापना-I--राष्ट्रपति, सीएसएस के ग्रुप 'क' और 'ख' (विलयित) के अधिकारी श्री विजय प्रकाश को 13 मई, 2011 के अपराह्न से 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 15,600--39,100/- रुपए + 6,600/- रुपए ग्रेड वेतन के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति से उन्हें पीपीएस के ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या उस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

निर्मला कुट्टी, अवर सचिव

दिनांक 6 जून 2011

सं. ए-22012/1/2010-स्थापना-III (भाग)--सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 11.12.2010 के कार्यालय आदेश संख्या 12016/4/एसटीएस/2010-आईएसएस के अनुसरण में, भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) के जूनियर टाईम स्केल अधिकारी (जेटीएस), श्री जे. पी. मीणा को ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये सहित पीबी-3 (15,600--39,100/- रुपये) में तदर्थ आधार पर उप निदेशक के पद पर सीनियर टाईम स्केल (एसटीएस) के रूप में पदोन्नत किया गया है। उन्होंने दिनांक 30.12.2010 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उप निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

निर्मला कुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 2011

सं. ए-12025/2/2010-डी.एफ.क्यू.सी.--राष्ट्रपति, डॉ. सुरिन्दर सिंह की औषध नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पद पर 21.06.2011 के बाद की आगे की अवधि और 31.03.2012 तक की अवधि या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, विदेशी सेवा की शर्तों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति का विस्तार करती है।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2011

सं. ए-19011/15/2011--प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री मानबेन्दु सेन को वर्ष 2010 की चयन सूची के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में उनका नाम शामिल किए जाने के पश्चात डीओपी एंड टी के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2010-सीएस-I (डी) दिनांक 09.05.11 के तहत उन्हें इस विभाग में तैनात किए जाने पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग दिनांक 25.5.2011 पूर्वाह्न से रुपये 15,600--39,100/- + 7,600/- रुपये (जीपी) के वेतनमान में उप सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

सुभाष चन्द खत्री, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जून 2011

सं. 12-3/2004-स्थापना-III (एफएफ)-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री बी. बी. साहू, चारा कृषि विज्ञानी को इस विभाग के अधीन क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र में 1.4.2011 के पूर्वाह्न से 15,600--39,100/- रुपए (वेतन बैंड-3) + 6,600/- रुपए (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में निदेशक के पद पर पदोन्नति पर नियुक्त करती हैं।

पी. एल. मीणा, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110114, दिनांक 6 जून 2011

सं. ए-32014/01/2010-स्थापना-II--राष्ट्रपति, निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड 'सी' (नियमित) को उनके नाम के आगे दर्शाई गई कार्य ग्रहण की तिथि से पे-बैंड-2, 9,300--34,800/- रुपए + ग्रेड पे 4,800/- रुपए से ग्रामीण विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (CSSS) संवर्ग में (आशुलिपिक ग्रेड 'ए' एवं 'बी' के विलय हो जाने पर) निजी सचिव (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर तदर्थ (ad-hoc) आधार पर या अगले आदेश आने तक नियुक्त करती हैं :-

क्र. अधिकारी का नाम	कार्य ग्रहण की तिथि
सं.	
1	2
3	
(श्री/श्रीमती)	
1. ओमप्रकाश	05.05.2011 (पूर्वाह्न)
2. संजीव पुरी	05.05.2011 (पूर्वाह्न)
3. नरेन्द्र कुमार	05.05.2011 (पूर्वाह्न)
4. दीपक चन्द्र उप्रेती	05.05.2011 (पूर्वाह्न)
5. मीनाक्षी ढांड	05.05.2011 (पूर्वाह्न)
6. मुख्त्यार सिंह	05.05.2011 (अपराह्न)

1	2	3
7. नीलम ठाकुर		05.05.2011 (पूर्वाह्न)
8. कान्ता देवी		05.05.2011 (पूर्वाह्न)
9. मरियाकुट्टी जोसेफ		05.05.2011 (पूर्वाह्न)
10. किरन बिर्दी		05.05.2011 (पूर्वाह्न)

जार्ज वाई., अवर सचिव

सं. ए-32014/01/2010-स्थापना-II--राष्ट्रपति, श्री नीलम कुमार, आशुलिपिक ग्रेड 'सी' (नियमित) को दिनांक 16.05.2011 (अपराह्न) से पे-बैंड-2, 9,300--34,800/- रुपए + ग्रेड पे 4,800/- रुपए से ग्रामीण विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (CSSS) संवर्ग में (आशुलिपिक ग्रेड 'ए' एवं 'बी' के विलय हो जाने पर) निजी सचिव (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर तदर्थ (ad-hoc) आधार पर या अगले आदेश आने तक नियुक्त करती हैं।

जार्ज वाई., अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2011

सं. ए-32013/1/2011-ई-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) के दिनांक 29 मार्च, 2011 के अनुसरण में राष्ट्रपति विभिन्न संवर्गों के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित निजी सचिवों को उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/-रु. + ग्रेड वेतन 6,600/- रु.) में प्रत्येक के सामने दर्शाई गई कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 30.09.2011 तक अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेश होने तक प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं :-

क्र. सं.	नाम	किस मंत्रालय से है	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री सी. दामोदरन	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (दूरसंचार विभाग)	05.05.2011 (पूर्वाह्न)
2.	श्रीमती मंजू शर्मा	नागरिक उड्डयन	06.05.2011 (पूर्वाह्न)
3.	श्री बजरंग लाल	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (महानिदेशालय आकाशवाणी)	06.05.2011 (पूर्वाह्न)

संजय गुप्ता, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2011

सं. ए-32014/02/2010-स्था.-1-राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 नवम्बर, 2010 के का. ज्ञा. सं. 6/9/2010-सी.एस.-I(एस)

के अनुसरण में, इस मंत्रालय के स्थायी सहायक श्री प्रकाश ए. खड़गी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग (समूह "ख" राजपत्रित) के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 4,800/- रुपए ग्रेड पे के साथ, पे बैंड-2 (9,300--34,800/- रुपए) में 22.02.2011 पूर्वाह्न से 30.06.2011 तक या नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूर्णतः अन्तराल को भरने का एक उपाय है और इस संवर्ग में अनन्तकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा अनुभाग अधिकारी संवर्ग में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-32014/02/2010-स्था.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 नवम्बर, 2010 के का. ज्ञा. सं. 6/9/2010-सी.एस.-I(एस) के अनुसरण में, इस मंत्रालय के स्थायी सहायक श्री पी. आर. सेन गुप्ता को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग (समूह "ख" राजपत्रित) के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 4,800/- रुपए ग्रेड पे के साथ, पे बैंड-2 (9,300--34,800/- रुपए) में 29.03.2011 पूर्वाह्न से 30.06.2011 तक या नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूर्णतः अन्तराल को भरने का एक उपाय है और इस संवर्ग में अनन्तकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा अनुभाग अधिकारी संवर्ग में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-32014/02/2010-स्था.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 नवम्बर, 2010 के का. ज्ञा. सं. 6/9/2010-सी.एस.-I(एस) के अनुसरण में, इस मंत्रालय के स्थायी सहायक श्री एम. एल. तिवारी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग (समूह "ख" राजपत्रित) के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 4,800/- रुपए ग्रेड पे के साथ, पे बैंड-2 (9,300--34,800/- रुपए) में 23.02.2011 पूर्वाह्न से 30.06.2011 तक या नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति पूर्णतः अन्तराल को भरने का एक उपाय है और इस संवर्ग में अनन्तकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा अनुभाग अधिकारी संवर्ग में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 जनवरी 2011

सं. ए-32013/1/2010-प्रशा-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, संघ

लोक सेवा आयोग के ग्रेड 1 (अवर सचिव) श्री अशोक वीतरवाडी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/2/2010-सी.एस.-I(घ), दिनांक 9 दिसम्बर, 2010 के संदर्भ में दूरसंचार विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वेतन बैंड-3 के वेतनमान 15,600--39,100/- रु. + 7,600/- रु. ग्रेड वेतन में दिनांक 27.12.2010 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. अधिकारी की उपर्युक्त पदोन्नति माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकाता में सुश्री गरिमा सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर ओ ए सं. 1864/2009 के अंतिम आदेशों के अधधीन है।

निर्मला देव, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 मई 2011

सं. 3(1)/2010-कार्मिक-I--सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस विभाग में निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (स्व-स्थाने) को दिनांक 30.05.2011 से 4,800/- रु. प्रति माह के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रु. के वेतन बैंड-2 में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया है :--

- (i) श्री मेधावी सिंह
- (ii) श्रीमती ए. पदमावती
- (iii) श्री जगदेव सिंह

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

सं. 3(8)/2009-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निम्नलिखित संयुक्त निदेशकों को इस विभाग में दिनांक 30.05.2011 से 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रु. (पीबी-4) के संशोधित वेतन ढांचे में स्वस्थाने/वैयक्तिक आधार पर निदेशक नियुक्त किया है :--

- (i) श्री बी. बी. बहल
- (ii) श्री गौतम भट्टाचार्य

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

सं. 3(12)/2010-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने निम्नलिखित उप निदेशकों (स्व-स्थाने) को पदोन्नत होने पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 30.05.2011 से 6,600/- रु. प्रति माह के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में नियमित आधार पर उप निदेशक नियुक्त किया है :--

- (i) श्रीमती अमरजीत गुलाटी
- (ii) श्रीमती देविन्दर कौर

(iii) श्रीमती जी. स्वर्णाम्बल

(iv) श्रीमती कुसुम भगत

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

मंत्रालय को 01 जून, 2011 से 6 महीने की अवधि के लिए अथवा एक नियमित उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नागर विमानन महानिदेशक के अतिरिक्त पद की अवधि को और आगे बढ़ाते हैं।

सुनील पंत, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2011

सं. 2(16)/2010-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने श्रीमती अनिता भटनागर जैन, आईएएस (उ.प्र. : 85), वर्तमान में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पार्श्व स्थानांतरण पर दिनांक 18.05.2011 के अपराह्न से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के उनके शेष 05 वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 20.01.2013 तक, अथवा अगला आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैड-4 में संयुक्त सचिव नियुक्त किया है।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 मई 2011

सं. ए-32015/1/2011-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, नागर विमानन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन (पे बैड-2) सहित 9,300--34,800/- रुपये के पे बैड में निजी सचिव के रूप में दिनांक 26.05.2011 से 30.09.2011 तक, अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिव उपलब्ध होने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	तैनाती का स्थान
1.	श्री जे. श्रीनिवासन	डीजीसीए
2.	श्रीमती कविता जलूथारिया	मंत्रालय (मुख्य)
3.	श्री आनन्द गोगिया	मंत्रालय (मुख्य)
4.	श्रीमती मनोरमा पाहवा	मंत्रालय (मुख्य)
5.	श्रीमती नीतू	डीजीसीए
6.	श्री हरी चन्द	मंत्रालय (मुख्य)

2. उपरोक्त अधिकारियों की निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर है और नागर विमानन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड में निजी सचिव के रूप में खपाये जाने अथवा ग्रेड में वरिष्ठता के लिए कोई दावा नहीं होगा।

शुभा ठाकुर, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 जून 2011

सं. ए-60015/160/2010-डीजी--राष्ट्रपति, श्री ई. के. भारत भूषण, आई.ए.एस. (केरल-79), अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन

विजय कुमार गुप्ता, सचिव,
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2011

सं. ए-32011/1/10-एम ए--राष्ट्रपति, सुश्री महुआ सरकार, आईआरएस (आईटी : 94), को दिनांक 29.04.2011 (पूर्वाह्न) से अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नौवहन महानिदेशालय में उप नौवहन महानिदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2011

सं. ए-12025/3/2008-आईआईएस--महामहिम राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा, 2009 के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित उम्मीदवारों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीखों से 5,400/- रु. के ग्रेड पे सहित 15,600--39,100/- रु. के पे बैड (8,000-275-13,500/- रु. के संशोधन से पूर्व वेतनमान) में भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करती हैं :--

क्र. सं.	उम्मीदवारों के नाम	रैंक सं.	नियुक्ति की तारीख
1.	सुश्री नीतू सोना एम.	727	11.03.2011
2.	सुश्री पूजा पी. वर्धन	832	30.08.2010
3.	श्री चेतन आर.	861	14.02.2011

2. उपर्युक्त अधिकारी भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षाधीन होंगे।

3. उन्हें अगले आदेशों तक निम्नलिखित माध्यम एककों में सहायक निदेशक (समाचार) के रूप में तैनात किया गया है :--

1. सुश्री पूजा पी. वर्धन--दूरदर्शन समाचार, नई दिल्ली
2. सुश्री नीतू सोना एम.--एनएसडी: आकाशवाणी, नई दिल्ली
3. श्री चेतन आर.--एनएसडी: आकाशवाणी, नई दिल्ली

रेणू अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 मई 2011

(सं. 161/2011) फा सं. 7/1/2011-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सी.एस.-II(ए) दिनांकित 29.03.2011 तथा 03.01.2011-सी.एस.-II(ए) दिनांकित 25.04.2011 के तहत तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रमुख निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्ति हेतु इस मंत्रालय में उनके नामांकन होने के परिणामस्वरूप और उनके कार्यालयों से निर्मुक्त किए जाने के पश्चात, निम्नलिखित निजी सचिवों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से 6,600/- रु. के ग्रेड पे सहित 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड में तदर्थ आधार पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में प्रमुख निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। उनकी अगली तैनाती, प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित कार्यालयों में, अगले आदेशों तक के लिए, की जाती है :--

क्र. सं.	नाम	पिछला कार्यालय	कार्य ग्रहण करने की तारीख	पीपीएस के रूप में तैनाती
1	2	3	4	5

(श्री/श्रीमती)

1.	ए. के. पालिवाल	सू.व. प्र. (मु.स.)	31.03.2011	मु.स. (पूर्वाह)
2.	एम. के. नाम्बियार	सू.व. प्र. (पीआईबी)	30.03.2011	पीआईबी (पूर्वाह)
3.	जे. पी. गैरोला	सू.व. प्र. (दूरदर्शन)	30.03.2011	दूरदर्शन (पूर्वाह)
4.	वाई. पी. गुलाटी	सू.व. प्र. (आकाशवाणी)	30.03.2011	आकाशवाणी (पूर्वाह)
5.	हरि प्रकाश	सू.व. प्र. (दूरदर्शन)	04.04.2011	दूरदर्शन (पूर्वाह)

1	2	3	4	5
6.	टी. राजा मौली	सू.व. प्र. (प्रकाशन विभाग)	27.04.2011	प्रकाशन (पूर्वाह) विभाग
7.	जया एस. अरोड़ा	सू.व. प्र. (पीआईबी)	26.04.2011	पीआईबी (पूर्वाह)
8.	तिलक राज	मानव संसाधन विकास	13.04.2011	मु.स. (पूर्वाह)
9.	नरेश कुमार सूद	गृह मंत्रालय	06.04.2011	मु.स. (अपराह)
10.	पी. के. मोहनदासन	श्रम	13.04.2011	मु.स. (पूर्वाह)

2. पीपीएस ग्रेड में उनकी पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और उक्त ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा पीपीएस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

दिनांक 6 जून 2011

(सं. 172/2011) फा सं. 6/1/2007-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री अरविंद कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उ. प्र. : 88) का केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल दिनांक 21.05.2011 से आगे तीन माह की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 21.08.2011 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2011

सं. ए-22017/1/2009-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री मुनीश कुमार गर्ग, आईएफएस (आरजे : 1988) को दिनांक 23.05.2011 (पूर्वाह) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st June 2011

No. RS/20/1/2011/47-Perl—On attaining the age of superannuation, Shri P. Gopalakrishnan, Additional Secretary & Financial Adviser retired from service with effect from the afternoon of 31st May, 2011.

M. SASILEKHA NAIR, Jt. Dir.

No. RS/20/1/2011/48-Perl—On attaining the age of superannuation, Shri K. Ravinder, Joint Director (Reporting) retired from service with effect from the afternoon of 31st May, 2011.

M. SASILEKHA NAIR, Jt. Dir.

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 2nd June 2011

No. A-19011/1/2008-Ad—On expiry of his three years tenure as Chairman, Joint Intelligence Committee, Shri Hridayanand Upadhyay, IPS (WB : 73), retired from Government Service with effect from the afternoon of 2nd June 2011.

M. S. S. NAIR, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 16th May 2011

No. A-12025/8/2007-Adm.II—Shri Baidhar Swain, ad hoc Economic Officer (Project Appraisal) (Group 'B' Gazetted) in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) plus Grade Pay of Rs. 4,600/- in the Planning Commission stands reverted to his substantive post of Research Assistant (Statistics) in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,200/- with effect from 10.05.2011 (AN).

SUBHASH CHANDER, Under Secy.

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 2nd June 2011

No. A-19012/37/11-UIDAI—In pursuance of approval of the Competent Authority as conveyed by Prasar Bharati (Broadcasting) Corporation of India Sookhana Bhavan, New Delhi letter No. 19011/259/2010/SE (T) dated 01.06.2011 Shri Navin Kumar has assumed the charge of Private Secretary in the Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi. w.e.f. 01 June, 2011 (FN) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation for a period of three years of until further orders whichever is earlier.

A. K. SARKAR, Dy. Dir. (Estt.)

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF
NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 31st May 2011

No. 12/39/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. Kavita Handa as Principal Private Secretary on ad hoc basis in the Ministry of Development of North Eastern Region with effect from the forenoon of 29.04.2011 for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

L. B. TUOLTE, Under Secy.

The 3rd June 2011

No. 12/40/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Arun Kumar as Statistical Investigator Grade-I (Gazetted) on ad hoc basis in the Ministry of Development of North Eastern Region with effect from 01.06.2011 (forenoon).

L. B. TUOLTE, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 24th May 2011

No. A-32014/1/2011-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri Panna Lal, regular Steno Grade A&B (Merged) of CSSS cadre of Ministry of Communication & Information Technology in the Grade of Principal Private Secretary of CSSS purely on ad hoc basis, in the PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in this Department w.e.f. 23.05.2011 (FN) for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis and until further orders, in terms of CS Division's OM No. 3/1/2011-CS.II (A) dated 29th March, 2011.

JAYANTHI SRIRAM, Under Secy.

New Delhi, the 1st June 2011

No. 13017/52/2008-AIS (I)—The Central Government, with the concurrence of Government of Madhya Pradesh, has approved the premature repatriation of Ms. Kamini Chauhan Ratan, IAS (UP : 97), presently on inter cadre deputation, from Madhya Pradesh to the cadre of Uttar Pradesh. The officer may be relieved, with the direction to report to her parent cadre i.e. Uttar Pradesh, immediately.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 24th May 2011

No. A-22011/2/2008-Admn.II—In pursuance of O.M. No. 32015/4/2010-CAS dated 03.05.2011 of Department of

Expenditure (CAS), the President is pleased to continue the ad hoc appointment of the following Section Officers upto 30.06.2011, or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs :—

Sl.No. Name of Officers

- Shri/Smt.
1. Ashok Kumar
2. B. N. Saini
3. Bhaskar Chakraborty
4. D. K. Kalra (Smt.)
5. Kishan Lal Meena
6. Manoj Manu
7. Neelam Sibal (Smt.)
8. Neera Budhiraja (Smt.)
9. Ramesh Prasad
10. Rita Sachdeva (Smt.)
11. Sadhna Sharma (Smt.)
12. Sanjay Kumar Jha
13. Sarita Gulati (Smt.)
14. Y. Y. Parate
15. Swran Rudra (Smt.)
16. Sikha Das (Smt.)
17. Satinder Jit Kaur (Smt.)
18. Sunil Kumar Mandi
19. E. Kujur (Smt.)
20. Santosh Kumar
21. S. Subramaniam
22. Hriday Nand Sah
23. Neelam Gandhi (Smt.)
24. Pratibha Sharma (Smt.)
25. D. K. Asija
26. Justine Xalxo

2. The ad hoc appointments of the above Assistants as Section Officer will be subject to the following terms and conditions :—

- a. Ad hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.

- b. Ad hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available either through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further orders. In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular Officers, from the date they (regular Section Officer) join duty in their respective cadre allotted to them by DOPT.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 25th May 2011

No. A-12011/6/2011-Admn.II—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 4/2/2011-CS.II dated 31.3.2011 & 13.4.2011 and Department of Expenditure (CAS)'s O.M. No. A-32014/2/2010-CAS dated 12.5.2011, the President is pleased to appoint the following Personal Assistants (PAs) of CSSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, as Private Secretary in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + 4,800/- (G.P.) / PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + 5,400/- (GP) in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad hoc basis w.e.f. the date(s) mentioned against their name for the period upto 30.9.2011 or till the regular PS become available whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment as PS in Department of Economic Affairs
	S/Shri	
1.	Atul Saxena	12.5.2011 (FN)
2.	Permod Kumar	12.5.2011 (FN)
3.	Dhana Ram	12.5.2011 (FN)
4.	Vimal Chanana	12.5.2011 (FN)
5.	Mallika Ravi Shankar	12.5.2011 (FN)
6.	Abhijit Sengupta	13.5.2011 (FN)
7.	Santosh Kumar Sagar	12.5.2011 (FN)
8.	Sarvan Kumar	12.5.2011 (FN)
9.	Rama Devi Sharma	12.5.2011 (FN)
10.	Seema Rani Arora	12.5.2011 (FN)
11.	Rita Ohri	12.5.2011 (FN)

2. The Ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade of Private Secretary (PS) of CSSS.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 31st May 2011

No. PFG(2253)/Ad.I—Smt. Sushama Nath, IAS (MP:1974), Finance Secretary & Secretary (Expenditure) to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired from Government Service with effect from the afternoon of the 31st May, 2011, on completion of extension of service beyond the age of superannuation.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

No. A-12026/3/2003-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Manmohan Sachdeva, ICoAS as Joint Director, on ad hoc basis in the Ministry of Finance, Department of Expenditure (Plan Finance I Division) w.e.f. the afternoon of 25th May, 2011 on deputation initially for a period of one year or until further orders.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 3rd June 2011

No. A-12026/5/2010-Ad.I—In continuation of this Department's notification No. A. 12026/5/2005-Ad.I dated 23.10.2008, the President is pleased to extend the tenure of Smt. Madhulika P. Sukul, (IDAS:82) as Joint Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure upto 31.03.2013.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

New Delhi, the 31st May 2011

No. A-11019/6/2011-EG—The President is pleased to appoint Shri Pranotosh Kumar Deb of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer on deputation basis in the office of the Pr. Accountant General (Audit), Meghalaya, Shillong in the scale of Rs. 15,600—39,100/- (Grade Pay Rs. 6,600/-) with effect from 6.5.2011 (F.N.) and until further orders.

ANIL SHARMA, Under Secy.

No. A-11019/6/2011-EG—The President is pleased to appoint Shri K. L. Saini of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer on deputation basis in the office of the Accountant General (A&E), Punjab, Chandigarh in the scale of Rs. 15,600—39,100/- (Grade Pay Rs. 6,600/-) with effect from 8.4.2011 (F.N.) and until further orders.

ANIL SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 31st May 2011

No. A-19011/742/2010-E.I—On the request of his parent cadre, viz., the State Government of Andhra Pradesh, for his

pre-mature repatriation and consequent on the approval of the ACC for the same, Shri Venkataramani Bhaskar, IAS (AP:81), Joint Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce & Industry, relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 31st May, 2011.

The services of Shri Venkataramani Bhaskar, IAS (AP:81) are placed at the disposal of his parent cadre viz., the Government of Andhra Pradesh with effect from the afternoon of 31st May, 2011.

L. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 26th May 2011

No. A-12011/1/2007(A)-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/1/2011-CS.II(A) dated 29th March, 2011, the President is pleased to appoint Smt. Neelu Nangia, PS of the CSSS cadre of the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education as Principal Private Secretary in the CSSS cadre of the Ministry of Petroleum & Natural Gas on ad hoc basis for a period upto 30.09.2011 in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. the forenoon of 13.05.2011.

2. The appointment of Smt. Nangia to the grade of PPS is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the grade of PPS.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi-110001, the 25th May 2011

No. A-32011/05/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Ms. Renu Sharma as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) on ad hoc basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 06.05.2011 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

2. The period of ad hoc promotion would be upto 30.09.2011 or till the regular Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) become available, whichever is earlier.

3. The ad hoc promotion/appointment is subject to the conditions mentioned in DoPT's O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

4. She is posted in the Department of Pharmaceuticals (DoP).

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-32011/05/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Ms. Neelam Uppal as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) on ad hoc basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 06.05.2011 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

2. The period of ad hoc promotion would be upto 30.09.2011 or till the regular Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) become available, whichever is earlier.

3. The ad hoc promotion/appointment is subject to the conditions mentioned in DoPT's O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

4. She is posted in the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) an attached office of Department of Pharmaceuticals (DoP).

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-32011/05/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Ms. Nirmal Chaudhary as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) on ad hoc basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 06.05.2011 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

2. The period of ad hoc promotion would be upto 30.09.2011 or till the regular Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) become available, whichever is earlier.

3. The ad hoc promotion/appointment is subject to the conditions mentioned in DoPT's O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

4. She is posted in the Department of Chemicals & Petrochemicals (DoC&PC).

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-32011/05/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Shri Lakshman Dass as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) on ad hoc basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 06.05.2011 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

2. The period of ad hoc promotion would be upto 30.09.2011 or till the regular Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) become available, whichever is earlier.

3. The ad hoc promotion/appointment is subject to the conditions mentioned in DoPT's O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

4. He is posted in the Department of Fertilizers (DoF).

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-32011/05/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Shri Mohan Singh as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) on ad hoc basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 06.05.2011 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

2. The period of ad hoc promotion would be upto 30.09.2011 or till the regular Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) become available, whichever is earlier.

3. The ad hoc promotion/appointment is subject to the conditions mentioned in DoPT's O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

4. He is posted in the Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) an attached office of Department of Fertilizers (DoF).

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-32011/05/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Shri R. P. Dhingra as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) on ad hoc basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 06.05.2011 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

2. The period of ad hoc promotion would be upto 30.09.2011 or till the regular Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) become available, whichever is earlier.

3. The ad hoc promotion/appointment is subject to the conditions mentioned in DoPT's O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

4. He is posted in the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) an attached office of Department of Pharmaceuticals (DoP).

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-32011/05/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Ms. Sudhha R. Sharma as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) on ad hoc basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 06.05.2011 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

2. The period of ad hoc promotion would be upto 30.09.2011 or till the regular Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) become available, whichever is earlier.

3. The ad hoc promotion/appointment is subject to the conditions mentioned in DoPT's O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

4. She is posted in the Department of Pharmaceuticals (DoP).

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-32011/05/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Shri K. R. Dashmana as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) on ad hoc basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 06.05.2011 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

2. The period of ad hoc promotion would be upto 30.09.2011 or till the regular Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) become available, whichever is earlier.

3. The ad hoc promotion/appointment is subject to the conditions mentioned in DoPT's O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31.03.2011.

4. He is posted in the Department of Pharmaceuticals (DoP).

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-32011/05/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Shri Malkeet Singh as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS on ad hoc basis in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 29.03.2011 (AN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 3/1/2011-CS.II(A), dated 29.03.2011.

2. The period of ad hoc promotion would be upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

3. The ad hoc promotion/appointment is subject to the conditions mentioned in DoPT's O.M. No. 3/1/2011-CS.II(A), dated 29.03.2011.

4. He is posted in the Department of Pharmaceuticals (DoP).

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-32011/04/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Shri Anoop Singh Rawat as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS on ad hoc basis in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 29.03.2011 (AN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 3/1/2011-CS.II(A), dated 29.03.2011.

2. The period of ad hoc promotion would be upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

3. The ad hoc promotion/appointment is subject to the conditions mentioned in DoPT's O.M. No. 3/1/2011-CS.II(A), dated 29.03.2011.

4. He is posted in the Department of Fertilizers (DoF).

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-32011/04/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Shri S. S. Rawat as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS on ad hoc basis in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 26.04.2011 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 3/1/2011-CS.II(A), dated 29.03.2011.

2. The period of ad hoc promotion would be upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

3. The ad hoc promotion/appointment is subject to the conditions mentioned in DoPT's O.M. No. 3/1/2011-CS.II(A), dated 29.03.2011.

4. He is posted in the Department of Chemicals & Petrochemicals (DoC&PC).

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-32011/04/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Ms. Indu Masand as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS on ad hoc basis in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 06.05.2011 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 3/1/2011-CS.II(A), dated 29.03.2011.

2. The period of ad hoc promotion would be upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

3. The ad hoc promotion/appointment is subject to the conditions mentioned in DoPT's O.M. No. 3/1/2011-CS.II(A), dated 29.03.2011.

4. She is posted in the Department of Chemicals & Petrochemicals (DoC&PC).

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

The 26th May 2011

No. A-23011/19/2010-HR-II—The President is pleased to appoint Smt. Santosh Anand as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS for the Select List Year 2009 on regular basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300-34,800 with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 06-05-2011 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 5/27/2010-CS.II(A), dated 16-03-2011.

2. She is posted in the Department of Fertilizers (DoF).

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-23011/19/2010-HR-II—The President is pleased to appoint Smt. Jasvinder Kaur Rangher as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS for the Select List Year 2009 on regular basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300-34,800 with Grade

Pay of Rs. 4,800/- in the Combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 10-05-2011 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 5/27/2010-CS.II(A), dated 16-03-2011.

2. She is posted in the Department of Fertilizers (DoF).
SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 23rd May 2011

No. A-18011/126/2011-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Order No. 4/2/2010-CS.I(D) dated 9th May, 2011, the President is pleased to appoint Shri U. Viswanadham, a Grade-I Officer (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) to Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis against Select List of Deputy Secretary of CSS for the year 2010 in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises with effect from the forenoon of 19th May, 2011, until further orders.

P. P. MURALIDHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

New Delhi-110107, the 27th May 2011

No. A-19011/23/2011-Admn.—Consequent on the inclusion of his name in the Select List for the year 2010 for Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) as per orders contained in Department of Personnel & Training Office Order No. 4/2/2010-CS.I(D) dated 9.5.2011, the President is pleased to appoint Shri V. Sethumadhavan, regular Grade-I (Under Secretary) of CSS (CSL No. 4618) to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS in the Department of Heavy Industry on regular basis with effect from the forenoon of 16th May, 2011.

L. C. RAM, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 26th May 2011

No. A-11011/1/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri C. Viswanath, IAS (AP:81) presently working as Joint Secretary in Warehousing Development Regulatory Authority, as Joint Secretary in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 19th May, 2011 on lateral transfer basis, for a tenure upto 02.03.2016, or until further orders, whichever event takes place earlier.

SANJAY KUMAR, Under Secy.

**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)**

New Delhi-110016, the 31st May 2011

No. A-38018/05/2010-Estt.—The President is pleased to retire Shri Ram Chander, Section Officers, Department of

Scientific and Industrial Research from Govt. Service on 31st May 2011 on his attaining the age of superannuation.

SRINIBAS PRADHAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 24th May 2011

No. A-12025/07/2011-CHS-IV—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Bhawna Malhotra Singh to the post of Specialist Grade-II (Obst. & Gynae) in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Services on probation with effect from the forenoon of the 8th April, 2011, until further orders.

O. P. SHARMA, Under Secy.

The 3rd June 2011

No. A. 12025/47/2009-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Mohit Bansal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 15,600-39,100+5,400/- (PB-3) in a temporary capacity with effect from the afternoon of 05.08.2010 until further orders. Dr. Mohit Bansal is posted as Medical Officer under Department of Post. He will be on a probation period of two years from the date of appointment.

O. P. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110108, the 2nd June 2011

No. A. 12025/22/11-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pulin Kumar Gupta to the post of Assistant Profession in the specialty of Medicine in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 24.03.2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/36/10-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rakesh Garg to the post of Assistant Professor in the specialty of Anaesthesia in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 21.02.2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/40/09-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Parul Mullick to the post of Assistant Professor in the specialty of Anaesthesia in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 24.03.2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FW

New Delhi, the 12th May 2011

No. A.32013/03/10-E.I—Consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select Lists of CSS for the year 2010 and in pursuance of Department of Personnel & Training's Officer Order No. 4/2/2010-CS.I(D) dt. 09th May, 2011, Sh. V.P. Rana, Grade-I (Under-Secretary) of the CSS in the Department of Health & Family Welfare is hereby appointed to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis in the Department of Health & Family Welfare with effect from 09.05.2011 (FN).

2. The promotion of Sh. V. P. Rana is subject to final orders in OA No. 1864/2009 filed before the Hon'ble CAT, Kolkata by Ms. Garima Singh Vs. Union of India & Ors. (since transferred to CAT, Principal Bench, New Delhi).

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

The 16th May 2011

No. A. 32013/1/2011-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Vijay Prakash, an officer of the Gr. 'A' & 'B' (merged) of CSSS, as Principal Private Secretary in the scale of Rs. 15,600-39,100 + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Ministry of Health and Family Welfare on ad-hoc basis with effect from the afternoon of 13th May 2011 for a period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment of the above officers to the grade of Principal Private Secretary will not bestow any right on them to continue in the grade of PPS indefinitely or for seniority in that grade.

NIRMALA KUTTY, Under Secy.

The 6th June 2011

No. A-22012/1/2010-Estt. III(pt)—In pursuance to the Ministry of Statistics & Programme Implementation Office Order No. 12016/4/STS/2010-ISS dated 11.12.2010. Sh. J. P. Meena, a Junior Time Scale officer (JTS) of Indian Statistical Service (ISS) has been promoted to the post of Senior Time Scale (STS) in the PB-3 (Rs. 15,600-39,100) with the Grade Pay of Rs. 6,600/- as Deputy Director on ad-hoc basis. He has assumed the charge of the post of Deputy Director with effect from 30.12.2010 in the Department of Health & Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare.

NIRMALA KUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 8th June 2011

No. A. 12025/2/2010-DFQC—The President is pleased to extend the appointment of Dr. Surinder Singh to the post of Drugs Controller (India), Dte. GHS on deputation on foreign service terms for a further period beyond 21.06.2011 and until 31.03.2012 or until further orders, whichever is earlier.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES)

New Delhi, the 26th May 2011

No. A-19011/15/2011-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Manabendu Sen as Deputy Secretary in the pay-scale of Rs. 15,600-39,100 + 7,600/- (GP) in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries w.e.f. the forenoon of 25.05.2011, consequent upon inclusion of his name in Selection Grade of Central Secretariat Service for the Select List year 2010 and posting in this Department vide DOP&T Office Memorandum Number 4/2/2010-CS-I (D) dated 09.05.2011.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

New Delhi, the 7th June 2011

No. 12-3-/2004-Admn. III (FF)—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Sh. B.B. Sahu, Fodder Agronomist, on promotion to the post of Director at Regional Station for Forage Production and Demonstration in the pay scale of Rs. 15,600-39,100 (PB 3) + 6,600/- (Grade Pay) under this Department w.e.f. 1.4.2011 (FN).

P. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110114, the 6th June 2011

No. A-32014/1/2010-Estt.II—The President is pleased to appoint the following regular Stenographers Grade 'C' of this Ministry, as Stenographer Grade 'A&B' (Merged) PS grade (Group 'B', Gazetted) of CSSS in the cadre of this Ministry purely on ad-hoc basis, in the pay band of Rs. 9,300-34800 plus Grade pay of Rs. 4,800/- with effect from the dates indicated against their names and until further orders :—

S. No.	Name	Date of Joining
	(Shri/Smt.)	
1.	Om Prakash	05.05.11 (F/N)
2.	Sanjeev Puri	05.05.11 (F/N)
3.	Narender Kumar	05.05.11 (F/N)
4.	Deepak Chandra Upreti	05.05.11 (F/N)
5.	Meenakshi Dhand	05.05.11 (F/N)
6.	Mukhtiyar Singh	05.05.11 (A/N)
7.	Neelam Thakur	05.05.11 (F/N)
8.	Kanta Devi	05.05.11 (F/N)
9.	Mariakutty Joseph	05.05.11 (F/N)
10.	Kiran Birdi	05.05.11 (F/N)

GEORGE Y., Under Secy.

No. A-32014/01/2010-E. II—The President is pleased to appoint Smt. Neelam Kumar, a regular Stenographer Grade 'C' of this Ministry, as Stenographer Grade 'A&B' (Merged)

Private Secretary Grade (Group 'B' Gazetted) of CSSS cadre of the Ministry of Rural Development, in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- on ad-hoc basis with effect from afternoon of 16th May, 2011 and until further orders.

GEORGE Y., Under Secy.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)**

New Delhi, the 23rd May 2011

No. A-32013/1/2011-E-III—In pursuance of the Department of Personnel and Training's O.M. No. 3/1/2011-CS-II (A) dated the 29th March 2011, the President is pleased to appoint the following PSs of CSSS of different Cadres, as Principal Private Secretary in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) on ad-hoc basis with effect from the date of joining shown against each to 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders :—

Sl. No.	Name	From Ministry of	Date of appointment
1.	Sh. C. Damodaran	Communication & Information Technology (Department of Telecommunication)	05.05.2011 (FN)
2.	Smt. Manju Sharma	Civil Aviation	06.05.2011 (FN)
3.	Sh. Bajrang Lal	Ministry of Information & Broadcasting (Directorate General : All India Radio)	06.05.2011 (FN)

SANJAY GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-110115, the 20th May 2011

No. A-32014/02/2010-Estt. I—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 6/9/2010-CS. I (S) dated 11th November, 2010, the President is pleased to appoint Shri Prakash A. Khadgi, a substantive Assistant of this Ministry, to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre (Group 'B' Gazetted) of the Ministry of Social Justice & Empowerment in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/-), with the Grade Pay of Rs. 4,800/-, on purely ad-hoc basis w.e.f. forenoon of 22.02.2011 upto 30.06.2011 or till regular Section Officers are available, whichever is earlier.

2. This ad-hoc promotion is made purely as a stopgap measure and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

No. A-32014/02/2010-Estt. I—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 6/9/2010-CS. I (S) dated 11th November, 2010, the President is pleased to appoint Shri P. R. Sengupta, a substantive Assistant of this Ministry, to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre (Group 'B' Gazetted) of the Ministry of Social Justice & Empowerment in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-), with the Grade Pay of Rs. 4,800/-, on purely ad-hoc basis w.e.f. forenoon of 29.03.2011 upto 30.06.2011 or till regular Section Officers are available, whichever is earlier.

2. This ad-hoc promotion is made purely as a stopgap measure and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

No. A-32014/02/2010-Estt. I—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 6/9/2010-CS. I (s) dated 11th November, 2010, the President is pleased to appoint Shri M. L. Tiwari, a substantive Assistant of this Ministry, to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service cadre (Group 'B' Gazetted) of the Ministry of Social Justice & Empowerment in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with the Grade Pay of Rs. 4,800/-, on purely ad-hoc basis w.e.f. forenoon of 23.02.2011 upto 30.06.2011 or till regular Section Officers are available, whichever is earlier.

2. This ad-hoc promotion is made purely as a stopgap measure and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION
TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)**

New Delhi-110001, the 12th January 2011

No. A-32013/1/2010-Admn. I—The President is pleased to appoint Shri Ashok V. Tarvadi, Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service, UPSC to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis in the Department of Telecommunications in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/- (Grade Pay) with effect from forenoon of the 27.12.2010 in terms of Department of Personnel & Training's Office Order No. 4/2/2010-CS. I (D) dated 9th December, 2010.

2. The above promotion of the officer is subject to final orders in OA No. 1864/2009 filed before the Hon'ble CAT, Kolkata by Ms. Garima Singh Vs UOI & Ors.

NIRMALA DEV, Under Secy. (Admn. I)

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 31st May 2011

No. 3(1)/2010-P.I.—The Secretary, Department of Information Technology is pleased to appoint on promotion, the following Section Officer (In-Situ) as Section Officer in this Department on regular basis in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- plus Grade of Rs. 4,800/- with effect from 30.05.2011 :—

- (i) Shri Medhavi Singh
- (ii) Smt. A. Padmavathi
- (iii) Shri Jagdev Singh

R. K. MANCHANDA, Jt. Director

No. 3(8)/2009-P.I.—The President is pleased to appoint the following Joint Director of Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology as Director on in-situ/personal basis in the Department in the revised structure of pay of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from 30.05.2011 :—

- (i) Shri B. B. Bahl
- (ii) Shri Gautam Bhattacharya

R. K. MANCHANDA, Jt. Director

No. 3(12)/2010-P.I.—The President is pleased to appoint the following Deputy Director (in-situ/personal) on promotion as Deputy Director on regular basis in the Department of Information Technology in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 6,600/- p.m. with effect from 30.05.2011 :—

- (i) Smt. Amarjit Gulati
- (ii) Smt. Devinder Kaur
- (iii) Smt. G. Swarnambal
- (iv) Smt. Kusum Bhagat

R. K. MANCHANDA, Jt. Director

No. 2(16)/2010-P.I.—The President is pleased to appoint Smt. Anita Bhatnagar Jain, IAS (UP : 85) presently Joint Secretary, Department of Higher Education as Joint Secretary, Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology, on lateral transfer, in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the afternoon of 18.05.2011 for the balance of her Central deputation of five years i.e. upto 20.01.2013 or until further orders, whichever event takes places earlier.

R. K. MANCHANDA, Jt. Director

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 31st May 2011

No. A-32015/1/2011-Admn.—The President is pleased to appoint the following permanent Personal Assistants borne on the CSSS cadre of the Ministry of Civil Aviation as Private Secretary in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- on ad-hoc basis from 26.5.2011 to 30.9.2011 or till regular PS of CSSS become available or until further orders whichever is earlier :—

S. No.	Name	Place of posting
1.	Shri J. Srinivasan	DGCA
2.	Smt. Kavita Jalutharia	Ministry (Main)
3.	Shri Anand Gogia	Ministry (Main)
4.	Smt. Manorama Pahwa	Ministry (Main)
5.	Smt. Neetu	DGCA
6.	Shri Hari Chand	Ministry (Main)

2. The appointment of above officials to the Private Secretary Grade is purely on ad-hoc basis and they will have no claims for absorption in the Private Secretary Grade of CSSS cadre of the Ministry of Civil Aviation or for seniority in the Grade.

SHUBHA THAKUR, Director

New Delhi, the 3rd June 2011

No. A-60015/160/2010-DG—The President is pleased to extend the assignment of additional charge of the post of Director General of Civil Aviation to Shri E. K. Bharat Bhushan, IAS (KL : 79), Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Civil Aviation for a period of six months with effect from 1st June, 2011 or till the appointment of a regular incumbent or until further orders, whichever is earlier.

SUNIL PANT, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 2nd June 2011

No. E(O)III-2011/RN 11—Consequent upon his permanent absorption in Centre for Railway Information System, a Public Sector Undertaking under this Ministry, Shri S. S. Mathur, SAG/IRSME, has resigned from Railway Service with effect from 05.04.2011.

V. K. GUPTA, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 31st May 2011

No. A-32011/1/10-MA—The President is pleased to appoint Ms. Mahua Sarkar, IRS (IT : 94), as Deputy Director General

of Shipping, in the Directorate General of Shipping, Mumbai on deputation basis with effect from 29.4.2011 (AN) for a period of five years, or till further orders, whichever is earlier.

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy. (Shipping)

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 5th May 2011

No. A-12025/3/2008-IIS—On the basis of the results of the Civil Services Examination 2009, the President is pleased to appoint the following candidates in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Pre-revised Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-) with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Candidates	Rank No.	Date of appointment
1.	Ms. Neethu Sona M.	727	11.03.2011
2.	Ms. Pooja P. Vardhan	832	30.08.2010
3.	Shri Chetan R.	861	14.02.2011

2. The abovementioned officers will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. They have been posted as Assistant Directors (News) in the following Media Units until further orders :—

1. Ms. Pooja P. Vardhan - Doordarshan News, New Delhi
2. Ms. Neethu Sona M. - NSD : AIR, New Delhi
3. Shri Chetan R. - NSD : AIR, New Delhi

RENU ARORA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 25th May 2011

No. 161/2011 (F. No. 7/1/2011-Admn. II)—Consequent upon their nomination to this Ministry for appointment as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers' Service on ad-hoc basis vide Department of Personnel & Training's O.M. Nos. 3/1/2011-CS.II (A), dated 29.03.2011 and 3/1/2011-CS.II (A), dated 25.04.2011 and after having been relieved from their offices, the following Private Secretaries are appointed to the post of Principal Private Secretaries in the Ministry of Information & Broadcasting

on ad-hoc basis in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the dates mentioned against each. They are further posted to the offices as mentioned against each, until further orders :—

Sl. No.	Name	Previous Office	Date of Joining	Posting as PPS
S/Shri/Smt.				
1.	A. K. Paliwal	I&B (MS)	31.03.11 (FN)	MS
2.	M. K. Nambiar	I&B (PIB)	30.03.11 (FN)	PIB
3.	J. P. Gairola	I&B (DDn)	30.03.11 (FN)	DDn
4.	Y. P. Gulati	I&B (AIR)	30.03.11 (FN)	AIR
5.	Hari Prakash	I&B (DDn)	04.04.11 (FN)	DDn
6.	T. Raja Mouli	I&B (DPD)	27.04.11 (FN)	DPD
7.	Jaya S. Arora	I&B (PIB)	26.04.11 (FN)	PIB
8.	Tilak Raj	HRD	13.04.11 (FN)	MS
9.	Naresh Kumar Sud	MHA	06.04.11 (AN)	MS
10.	P. K. Mohandasani	Labour	13.04.11 (FN)	MS

2. Their promotion to the grade of PPS is purely on ad-hoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the grade of PPS.

S. S. BEDI, Under Secy.

The 6th June 2011

No. 172/2011 (F. No. 6/1/2007-Admn. II)—The President is pleased to extend central deputation tenure of Shri Arvind Kumar, IAS (UP : 88), Joint Secretary in the Ministry of Information & Broadcasting for a period of three months beyond 21.05.2011 i.e. upto 21.08.2011 or until further orders, whichever is earlier.

S. S. BEDI, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 26th May 2011

No. A-22017/1/2009-Admn. I—The President is pleased to appoint Shri Munish Kumar Garg, IFS (RJ : 1988) as Director in the Ministry of Urban Development w.e.f. 23.05.2011 (FN) for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)